



केमाशिबो /निदे.(कौशल शिक्षा और प्रशिक्षण)/उस/2022

08.04.2022

## अधिसूचना

माध्यमिक स्तर के विभिन्न कौशल विषयों के लिए ऑनलाइन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम (कक्षा- IX-X)

बोर्ड ने माध्यमिक स्तर (कक्षा IX-X) पर 'पर्यटन का परिचय', 'बैंकिंग और बीमा' और 'विपणन बिक्री' विषयों से संबंधित शीर्षकों पर शिक्षकों के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई है, जोकि निम्नलिखित समय-सारणी के अनुसार है :-

क्र. सं.	विषय का नाम	शीर्षक	तिथि और समय	पंजीकरण के लिए लिंक
1	पर्यटन का परिचय	भारत के पर्यटन उत्पाद	13/04/2022 दोपहर 3.00 बजे से 4.00 बजे तक	<a href="https://forms.gle/tr79BZKvAxyKGEA99">https://forms.gle/tr79BZKvAxyKGEA99</a>
2	बैंकिंग और बीमा	सामान्य बीमा	20/04/2022 दोपहर 3.00 बजे से 4.00 बजे तक	<a href="https://forms.gle/TvGKPCBpWKDSDw49A">https://forms.gle/TvGKPCBpWKDSDw49A</a>
3	विपणन एवं बिक्री	विक्रय कौशल	22/04/2022 दोपहर 3.00 बजे से 4.00 बजे तक	<a href="https://forms.gle/V1JXbb73cRpiicAJ6">https://forms.gle/V1JXbb73cRpiicAJ6</a>

### कृपया ध्यान दें कि:

- इन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए कोई शुल्क नहीं है।
- केमाशिबो से संबद्ध विद्यालय में 'पर्यटन का परिचय', 'बैंकिंग और बीमा' और 'विपणन एवं बिक्री' को एक कौशल विषय के रूप में पढ़ाने वाले शिक्षक उपर्युक्त लिंक का उपयोग करके उपर्युक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पंजीकरण कर सकते हैं।
- सीमित सीटें ही उपलब्ध हैं। प्रतिभागियों का चयन पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर होगा।
- संबंधित वेबिनार के लिए आमंत्रण लिंक चयनित शिक्षकों को कार्यक्रम से एक दिन पहले पंजीकरण के समय प्रदत्त ईमेल आईडी पर ईमेल किया जाएगा।

किसी भी जानकारी / प्रतिक्रिया के लिए, विद्यालय [skedu\\_ap1@cbseshiksha.in](mailto:skedu_ap1@cbseshiksha.in) पर ई-मेल कर सकते हैं।

*विश्वजीत साहा*  
(डॉ. विश्वजीत साहा)  
निदेशक (कौशल शिक्षा और प्रशिक्षण)



# केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)  
**CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION**  
(An Autonomous Organisation Under the Ministry of Education, Govt. of India)



अपने अधिकार क्षेत्र के सभी स्कूलों को सूचना प्रसारित करने के अनुरोध के साथ नीचे दिए गए अनुसार निदेशालय, संगठनों और संस्थानों के संबंधित प्रमुखों को प्रतिलिपि:

1. आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, 18, संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, दिल्ली - 110016
2. आयुक्त, नवोदय विद्यालय समिति, बी-15, सेक्टर-62, संस्थागत क्षेत्र, नोएडा - 201309
3. शिक्षा निदेशक, शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, पुराना सचिवालय, दिल्ली - 110054
4. सार्वजनिक निर्देश निदेशक (विद्यालय), संघ शासित प्रदेश सचिवालय, सेक्टर 9, चंडीगढ़ - 160017
5. शिक्षा निदेशक, सिक्किम सरकार, गंगटोक, सिक्किम - 737101
6. विद्यालय शिक्षा निदेशक, अरुणाचल प्रदेश सरकार, ईटानगर - 791111
7. शिक्षा निदेशक, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सरकार, पोर्ट ब्लेयर - 744101
8. निदेशक, केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन, ईएसएसएसएस प्लाजा, सामुदायिक केंद्र, सेक्टर 3, रोहिणी।
9. सचिव, सैनिक विद्यालय सोसायटी, कमरा नंबर 101, डी-1 विंग, सेना भवन, नई दिल्ली-110001
10. सेना शिक्षा के अतिरिक्त महानिदेशक, ए-विंग, सेना भवन, डीएचक्यू, पीओ, नई दिल्ली - 110001
11. सचिव एडब्ल्यूईएस, रक्षा मंत्रालय (सेना) का एकीकृत मुख्यालय, एफडीआरसी, बिल्डिंग नंबर 202, शंकर विहार (एपीएस के पास), दिल्ली कैंट - 110010
12. सचिव, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस), जनजातीय मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार
13. अध्यक्ष, ओडिशा आदर्श विद्यालय संगठन, एन-1/9, दूरदर्शन केंद्र के पास, पीओ सैनिक विद्यालय नयापल्ली, भुवनेश्वर, ओडिशा-751005
14. अध्यक्ष, केमाशिबो के उप सचिव - अध्यक्ष, केमाशिबो की जानकारी के लिए
15. बोर्ड के सभी विभागाध्यक्ष
16. सभी क्षेत्रीय निदेशकों/क्षेत्रीय अधिकारियों/प्रमुख-उत्कृष्टता केंद्र, केमाशिबो इस अनुरोध के साथ कि इस परिपत्र को बोर्ड के सभी संबद्ध स्कूलों के प्रमुखों को उनके संबंधित क्षेत्रों में अनुपालन के लिए भेजें।
17. प्रमुख (मीडिया और जनसंपर्क), केमाशिबो
18. सहायक सचिव (आईटी), केमाशिबो, राउज एवेन्यू इस अनुरोध के साथ कि इस अधिसूचना को केमाशिबो शैक्षणिक वेबसाइट पर अपलोड करें
19. प्रभारी, हिंदी प्रकोष्ठ, केमाशिबो मुख्यालय - इस अधिसूचना के हिंदी अनुवाद हेतु

निदेशक (कौशल शिक्षा और प्रशिक्षण)



'शिक्षा सदन', 17 राऊज़ एवेन्यू, इंस्टीटूशनल एरिया, नई दिल्ली-110002  
'Shiksha Sadan', 17, Rouse Avenue, Institutional Area, New Delhi - 110002

